

**POSSESSION NOTICE (For Immovable property) (Rule 8(1))**

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated as mentioned below, calling upon the Borrower / Mortgagor / Guarantor to repay the amount mentioned in the notice with further interest at contractual rates and rests, charges etc till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 1<sup>st</sup> day of February of the year 2023.

The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank, for an amount mentioned in the notice with interest thereon at contractual rates and rests as agreed, and other charges, from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice. The dues payable as on the date of taking possession as mentioned is repayable with further interest at contractual rates and rates, charges etc, till date of payment.

The Borrowers and Mortgagors attention is invited to provisions of Sub-section (8) of the section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets.

Sl. No.	Name of Borrower/ Mortgagor & Guarantor with Address	Description of Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount as per Possession Notice
1.	<b>Mr. Zulfiqar Ali S/o Kamruddin, Mohalla-Sadat, Uparkot, Bulandshahr, District-Bulandshahr (203001)</b>	All that part and parcel of the Residential Property 92 Sq. Yard ( 76.98 Sqr.mtr.) in the name of Mr. Zulfiqar Ali, at M No. 414, Mohalla Islamabad Nagar, Pargana Baran, Tehsil & Distt-Bulandshahr, U.P-203001, sale deed bearing with sub registrar Bulandshahr, Bounded : North - Street 13'-07" wide, South - House Mohd. Saleem , East - Land of Mohd. Shamin, West - Rasta	<b>16.03.2022</b> Amount as per Demand Notice <b>Rs. 20,38,836.27</b> as on 16.03.2022 + further Int. & other charges	<b>01.02.2023</b>	<b>Rs. 21,89,482.27</b> as on 01.02.2023 + further Interest & other charges

Date: 01.02.2023

Authorised Officer

Whereas, the undersigned (Finance Limited) of the Enforcement of Security Interest Act read with rule 8 of the Act upon the below Borrower. The borrowers having failed to take possession of the property as mentioned in the Act read with Rule 8 of the Act. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned that the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank, for an amount mentioned in the notice with interest thereon at contractual rates and rests as agreed, and other charges, from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice. The dues payable as on the date of taking possession as mentioned is repayable with further interest at contractual rates and rates, charges etc, till date of payment.

SR. NO.	NAME OF BORROWERS	ALL THE PROPERTIES MEASURED FLOOR OF KHAMOLAR BOUND WEST: ROAD.
1.	RANJUL, BABAITA,	

PLACE: NEW DELHI  
DATED: 02.02.2023

**JINDAL CAPITAL LTD.**

Regd Office: 201, Aggarwal Plaza, Sector-9, Rohini, Delhi-110085  
CIN: L65910DL1994PLC059720; Ph No. 011-45578272

E Mail ID: info@jindalcapital.co.in; Website: www.jindalcapital.co.in

Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2022

Amount (Rs.) in Lakhs except for Point 8

S. No.	Particulars	Quarter ended			Period Ended		Year ended (audited)
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
1	Total income from operations (net)	102.18	87.45	120.07	389.96	620.77	866.18
2	Net Profit/(Loss) for the period (before exceptional items and/or Extraordinary items)	5.59	2.91	2.90	47.38	86.66	74.26
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items and/or Extraordinary items)	5.59	2.91	2.90	47.38	86.66	74.26
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items and/or Extraordinary items)	5.59	2.91	2.90	37.66	65.26	44.52
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.59	2.91	2.90	37.66	65.26	65.84
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each)	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08	72.08
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance Sheet of the previous year	146.67	146.67	69.69	146.67	69.69	146.67
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted.	0.08	0.04	0.04	0.52	0.91	0.62

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on company's website www.jindalcapital.co.in
- The above results has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 01, 2023.
- Previous periods figures have been regrouped, wherever considered necessary.

For and on behalf of Board of Directors  
Jindal Capital Limited  
Sd/-  
Sadhu Ram Aggarwal  
(Chairman-cum-Managing Director)  
DIN: 00961850

Place: Delhi  
Date: 01.02.2023

**केनरा बैंक**  
Kotera Bank

**Notice Under Financial**

Whereas at the request of the borrower against schedule property by you by way of deposit. As you have failed to classified as Non-performing Notice sent to you unserved, we are issuing

Name & Address of Borrower/Mortgagor/Guarantor

Borrower - M/s A S F Prop.- Avatar Singh S/o Singh Solanki, Guarantor Singh Solanki S/o Hukam Add.of All- Kheda Pach Road Rohta, Agra

If you, the aforementioned and incidental expenses within 60 days from the date under Sub-section (8) notice is without prejudice necessary under any

Dated : 02-02-2023

**Public**

Sale of Immovable property Office at Plot No.98, Udyog Vihar, Pura, Mathura - 281001/ Plot No. 10/11, Sector-10, Noida Delhi under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Reserve Price
1. Mr. Deepak Agrawal	
2. Deepak General Store	
3. Mrs.Niti Agrawal	

**Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix - IV A) (Rule 8(6))**

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at- Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi/ A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Symbolic Possession	Reserve Price
---	-------------------------------	--	-----------------------------	---------------



